



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 940]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2001/पौष 7, 1923

No. 940]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2001/PAUSA 7, 1923

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1267(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित संस्थानों का अनुमोदन करती है और उन पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित अनुमानित लागत विनिर्दिष्ट करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि, जिसे धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, को भी विनिर्दिष्ट करती है, नामतः—

सारणी

क्रम सं०	संस्था का नाम	परियोजना अथवा स्कीम तथा उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि
1.	2.	3.	4.
1.	श्रीमती उषाबेन रसिकलाल शा. दिग्विजय लॉयन ठारडी सहायक ट्रस्ट, 5, विश्रान्ति गृह, सिविल अस्पताल के सामने अहमदाबाद-380016	पूरे गुजरात में ठारडी सहायक ट्रस्ट द्वारा निशुल्क चिकित्सा सेवाओं को चलाना, अनुमानित लागत 51.00 लाख रुपए जिसमें 15.00 लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है ।	51.00 लाख रुपए जिसमें 15.00 लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है ।

2.	एकीकृत ग्रामीण विकास ब्यूरो, सं० 62, कारपागर विनायागर कॉइल स्ट्रीट, पेरम्बरकांडीगई गांव, थोम्पेट्टु पोस्ट-603310, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	पेरम्बरकांडीगई गांव, अचरापक्कम ब्लॉक, कांचीपुरम जिला तमिलनाडु में वृद्धों के लिए घर का निर्माण, अनुमानित लागत 23.00 लाख रुपए ।	23.00 लाख रुपए
3.	गांधीग्राम ट्रस्ट, गांधीग्राम पो०. 310, डिन्डीगुल जिला, तमिलनाडु) पिन-624302	गांधीग्राम, डिन्डीगुल जिला, तमिलनाडु में गांधीग्राम ट्रस्ट के शिशु गृह/अस्पताल/शिक्षा संस्था के लिए सतत तथा भवन कार्पस निधि, अनुमानित लागत 45.00 लाख रुपए (कार्पस निधि)	45.00 लाख रुपए (कार्पस निधि)
4.	रमाकान्त मुन्जाल फाउंडेशन, 37, बसन्त लोक, बसन्त विहार नई दिल्ली 110057	सिडरावली, जिला गुडगांव, हरियाणा में भवन निर्माण, उपस्करों की खरीद, साज-सज्जा और रमन मुन्जाल मैमोरियल ट्रस्ट को चलाना, अनुमानित लागत 567.64 लाख रुपए तथा 500.00 लाख रुपए की कार्पस निधि ।	310.51 लाख रुपए तथा 500.00 लाख रुपए की कार्पस निधि ।
5.	क्वियानिस क्लब, नई दिल्ली, क्वियानिस भवन, बी-35, कुतुब औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016	बी-35, कुतुब औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में संयंत्रों, मशीनी औजार, हाथ के औजार आदि की खरीद तथा कृत्रिम अंग केन्द्र को चलाना, अनुमानित लागत 500. 00 लाख रुपए (कार्पस निधि)	200.00 लाख रुपए (कार्पस निधि)
6.	दि सोसायटी फॉर फिजीकली हैंडीकैप्ड, अहमदाबाद, 6-मारुतनंदन कॉम्प्लेक्स, (सुदामा हाउस) प्रीतमनगर, प्रथम स्लोप, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006	बोहक्केव, पंचायत, अहमदाबाद सिटी तालुक, गुजरात में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए प्रशिक्षण तथा पुनर्वास केन्द्र हेतु भवन निर्माण, अनुमानित लागत 133.56 लाख रुपए ।	74.97 लाख रुपए

7.	श्री दत्तात्रेय ज्ञान बोध सत्संग सभा धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि०), श्री दत्तात्रेय उर्वरक परियोजना, ए-16 नीति बाग, नई दिल्ली-110049	स्वरूप नगर, जी०टी० करनाल रोड, नई दिल्ली में भूमि की खरीद, भूमि विकास, भवन निर्माण, श्री दत्तात्रेय उर्वरक परियोजना की स्थापना तथा इसको चलाने के लिए उपकरणों, वाहनों की खरीद, अनुमानित लागत 1600.00 लाख रुपए ।	1600.00 लाख रुपए
8.	महाराणा प्रताप धर्मार्थ ट्रस्ट, 25 डी, हरीश मुखर्जी रोड, 1 ई, प्रथम तल, कलकत्ता-700025	ग्राम दांता (सीकर) राजस्थान तथा कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) में प्राथमिक रूप से महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए अनौपचारिक शिक्षा तथा स्व-रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना तथा रखरखाव, अनुमानित लागत 272.00 लाख रुपए	272.00 लाख रुपए
9.	गजराबेन नानूभाई देसाई पब्लिक धर्मार्थ ट्रस्ट, 101, रावजी प्रेमजी अपार्टमेन्ट, 262, एस. वी० रोड, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई-400092	मुम्बई में अरीबों तथा जरूरतमंद लोगों के लिए चिकित्सा/शैक्षिक सहायता, अनुमानित लागत 100.00 लाख रुपए जिसमें 75.00 लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है ।	100.00 लाख रुपए जिसमें 75.00 लाख रुपए की कार्पस निधि शामिल है ।

2. यह अधिसूचना सारणी में उल्लिखित परियोजनाओं के संबंध में निर्धारण वर्ष 2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-2005 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

[सं. 372-2001/फा. सं. 118/2001]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (रा. स.)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2001

S.O. 1267(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendations of the National Committee, hereby approves the institutions mentioned in column (2) of the Table below and specifies the eligible projects or

schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the said Table and also specifies in the column (4) of the said Table, the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said section 35AC, namely:-

T A B L E

Serial Number	Name of the Institution	Project or scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Smt. Ushaben Rasiklal Shaw Digvijay Lion Dardi Sahayak Trust, 5, Vishranti Gruh, Opp. Civil Hospital, Ahmedabad – 380016.	Running of free medical services by Dardi Sahayak Trust at whole of Gujarat, likely to cost Rs.51.00 lakhs including a corpus fund of Rs.15.00 lakhs.	Rs.51.00 lakhs including a corpus fund of Rs.15.00 lakhs.
2.	Bureau for Integrated Rural Development, No.62, Karpagavinayagar Koil Street, Perumberkandigai Village, Thozhupedu Post – 603310, Kancheepuram District, Tamilnadu.	Construction of Home for the Aged at Perumberkandigai, Village Acharapakkam Block, Kancheepuram District, Tamilnadu, likely to cost Rs.23.00 lakhs.	Rs.23.00 lakhs.
3.	Gandhigram Trust, Gandhigram P.O., Dindigul District (Tamil Nadu), Pin – 624302.	Sustainability and building corpus fund for children's home/hospital/education institution of Gandhigram Trust at Gandhigram, Dindigul District, Tamil Nadu, likely to cost Rs.45.00 lakhs (corpus fund).	Rs.45.00 lakhs (corpus fund).
4.	Ramakant Munjal Foundation, 37, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi – 110057.	Construction of building, purchase of equipments, furnishing and running of Raman Munjal Memorial Trust at Village Sidrawali, District Gurgaon, Haryana, likely to cost Rs.567.64 lakhs plus a corpus fund of Rs.500.00 lakhs.	Rs.310.51 lakhs plus a corpus fund of Rs.500.00 lakhs.
5.	Kiwanis Club of New Delhi, Kiwanis Bhawan, B-35, Qutub Institutional Area, New Delhi – 110016.	Purchase of plants, m/c tools, Hand tools etc. and running of Artificial Limb Centre at B-35, Qutub Institutional Area, New Delhi, likely to cost Rs.500.00 lakhs (corpus fund).	Rs.200.00 lakhs (corpus fund).
6.	The Society for Physically Handicapped, Ahmedabad, 6-Marutnandan Complex, (Sudama House), Pritamnagar, 1 st Slope, Ellisbridge, Ahmedabad – 380006.	Construction of building for Training and Rehabilitation Centre for Physically Handicapped people at Bodakdev, Panchayat, Ahmedabad City Taluk, Gujarat, likely to cost Rs.133.56 lakhs.	Rs.74.97 lakhs.
7.	Shri Dattatreya Gnana Bodha Satsang Sabha Charitable Trust (Regd.), Sri Dattatreya Fertilizer Project, A-16, Neeti Bagh, New Delhi – 110049.	Purchase of land, land development, construction of building, purchase of equipments, vehicles for setting up and running of Sri Dattatreya Fertilizer Project at Swaroop Nagar, GT Karnal Road, Delhi, likely to cost Rs.1600.00 lakhs.	Rs.1600.00 lakhs.

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Maharana Pratap Charitable Trust, 25D, Harish Mukherjee Road, 1E, First Floor, Calcutta - 700025.	Establishment and maintenance of centre for non-formal education and training for self-employment primarily for women and weaker sections of the society at Village Danta (Sikar), Rajasthan and Calcutta (West Bengal), likely to cost Rs.272.00 lakhs.	Rs.272.00 lakhs.
9.	Gajrabai Nanubhai Desai Public Charitable Trust, 101, Ravji Premji Apartment, 262, S.V. Road, Borivali (West), Mumbai - 400092.	Medical/educational help to poor and needy persons at Mumbai, likely to cost Rs.100.00 lakhs including a corpus fund of Rs.75.00 lakhs.	Rs.100.00 lakhs including a corpus fund of Rs.75.00 lakhs.

2. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to assessment years 2002-2003, 2003-2004 and 2004-2005 in respect of projects mentioned in the Table.

[No 372-2001/F No 118/2001]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (N. C.)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2001

क्र.आ. 1268(अ).— जहाँके, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 7 फरवरी, 1997 की अधिसूचना सं०सां० आ० 92 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने नेचर क्योर एंड योगा ट्रस्ट, बापू नेचर क्योर हॉस्पिटल एंड योगाश्रम, गांधी निधि, पटपटगंज, दिल्ली-110091 द्वारा पटपटगंज, दिल्ली में नेचरोपैथी इंस्टीट्यूट-और-हॉस्पिटल की आधारभूत सुविधाओं, उपस्करों और उसकी साज-सज्जा सहित भवन निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 4 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 1 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं०सां० आ० 221 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है :

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है,

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 36 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ परित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेचर क्योर एंड योगा ट्रस्ट, बापू नेचर क्योर हॉस्पिटल एवं योगाश्रम, गांधी निधि, पटपड़गंज, दिल्ली-110091 द्वारा चलाई जा रही पटपड़गंज, दिल्ली में वैद्यरोपैथी इंस्टीट्यूट एवं हॉस्पिटल की आधारभूत सुविधाओं, उपकरणों और उसकी साज-सज्जा भवन निर्माण की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र तीन करोड़ तिरासी लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 373-2001/फा. सं. एन. सी.-118/2001]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (रा. स.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2001

S.O. 1268(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.92(E) dated the 7th February, 1997, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 4, for Construction of buildings of Naturopathy Institute-cum-hospital at Patparganj, Delhi with infrastructural facilities, equipments and furnishing thereof, by Nature Cure and Yoga Trust, Bapu Nature Cure Hospital and Yogashram, Gandhi Nidhi, Patparganj, Delhi – 110091, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998 which was extended further vide notification numbers S.O.221(E) dated the 1st April, 1999 for a period of two years beginning with assessment year 2000-2001;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years;

And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction of buildings of Naturopathy Institute-cum-hospital at Patparganj, Delhi with infrastructural facilities, equipments and furnishing thereof, which is being carried out by Nature Cure and Yoga Trust, Bapu Nature Cure Hospital and Yogashram, Gandhi Nidhi, Patparganj, Delhi – 110091, at the estimated cost of rupees three crores eighty three lakhs only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2002-2003.

[No. 373-2001/F. No NC-118/2001]

G. C. SRIVASTAVA, Secy. (N. C.)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1269(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 12 अगस्त, 1993 की अधिसूचना सं०सां० आ० 802 (अ०) यथा संशोधित दिनांक 14 जुलाई, 1994 की अधिसूचना सं०सां० आ० 524 (अ०) और दिनांक 12 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं० सां० 200 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च सोसायटी, दयानंद भवन, 3/5, आसफ अली रोड, दरियागंज, नई दिल्ली द्वारा अग्रोहा, जिला हिसार, हरियाणा में महाराजा अग्रसेन अस्पताल के निर्माण की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था जिसे बाद में दिनांक 2 फरवरी, 1996 की अधिसूचना सं० सां०आ० 94 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए और दिनांक 12 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं० सां० आ० 200 (अ०) के तहत कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के आठ वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 113 के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है,

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराजा अग्रसेन मेडिकल एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च सोसायटी, दयानंद भवन, 3/5, आसफ अली रोड, दरियागंज, नई दिल्ली द्वारा अग्रोहा, जिला हिसार, हरियाणा में चलाई जा रही महाराजा अग्रसेन अस्पताल के निर्माण की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र चालीस करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 374-2001/फा. सं. एन. सी.- 118/2001]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (रं. स.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2001

S.O. 1269(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.602(E) dated the 12th August, 1993 as amended by S.O.524(E) dated the 14th July, 1994 and S.O.200(E) dated 12th March, 1998, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 3, for Construction of Maharaja Agrasen Hospital at Agroha, District Hisar, Haryana, by Maharaja Agrasen Medical Education & Scientific Research Society, Dayanand Bhawan, 3/5, Asaf Ali Road, Darya Ganj, New Delhi, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1994-1995 which was extended further vide notification numbers S.O.94(E) dated the 2nd February, 1996 for a period of two years beginning with assessment year 1997-1998 and S.O.200(E) dated the 12th March, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eight years;

And whereas the National Committee has, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by subsection (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction of Maharaja Agrasen Hospital at Agroha, District Hisar, Haryana, which is being carried out by Maharaja Agrasen Medical Education & Scientific Research Society, Dayanand Bhawan, 3/5, Asaf Ali Road, Darya Ganj, New Delhi, at the estimated cost of rupees forty crores only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2002-2003.

[No. 374-2001/E No NC-118/2001]

G. C. SRIVASTAVA, Secy (N. C.)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1270(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 11 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं०सां० आ० 97 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने टाटा स्पाञ्ज आयरन लि. पो०आ० जोदा, जिला क्यौझर, उड़ीसा द्वारा उड़ीसा के क्यौझर जिले के विभिन्न गांवों में ट्यूब वेल खोदने, संग्रहण योग्य पीने का पानी उपलब्ध कराना, विद्यालयों का सुधार, कृषि गतिविधियों का संवर्धन/सुधार, तथा चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 2 पर विनिर्दिष्ट किया गया था .

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है :

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 118 के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने तथा परियोजना लागत को संशोधित कर 10.00 लाख रुपये से 30.00 लाख रुपये करने की भी सिफारिश की है,

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 36 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) टटा स्पॉन्ज आयरन लि. पो0आ0 जोदा, जिला कर्णोहर, उड़ीसा द्वारा उड़ीसा के कर्णोहर जिले के विभिन्न गांवों में चलाई जा रही ट्यूब वेल खोदने, संग्रहण योग्य पीने का पानी उपलब्ध कराना, विद्यालयों का सुधार, कृषि गतिविधियों का संवर्धन/सुधार, तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, और

(ख) दिनांक 11 फरवरी, 1999 की उक्त अधिसूचना सं0 सां0 आ0 97 (अ0) में आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 2 से संबंधित कालम 4 में अधिकतम अनुमत्य लागत में अक्षरों, शब्दों और अंकों '10.00 लाख रु.' के स्थान पर अक्षर, अंक और शब्द '30 लाख रु.' प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

[सं. 375-2001/फा. सं. एन. सी.-118/2001]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (रा. स.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2001

S.O. 1270(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O.97(E) dated the 11th February, 1999, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, for Digging of tube-wells for providing potable drinking water, repairing of schools, promotion/improvement of agricultural activities and providing medical facilities in various villages in Keonjhar District of Orissa, by Tata Sponge Iron Limited, P.O. Joda, District Keonjhar, Orissa, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

3988-11/2001-2

And whereas the National Committee has, being satisfied that the project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs.10.00 lakhs to Rs.30.00 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by subsection (1), read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

- (a) hereby specifies the scheme or project of Digging of tube-wells for providing potable drinking water, repairing of schools, promotion/improvement of agricultural activities and providing medical facilities in various villages in Keonjhar District of Orissa, which is being carried out by Tata Sponge Iron Limited, P. O. Joda, District Keonjhar, Orissa, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from assessment year 2002-2003; and
- (b) further amends the said notification number S.O.97(E) dated the 11th February, 1999, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 2, in column (4) relating to maximum cost to be allowed, for the letters, figures and word "Rs. 10.00 lakhs", the letters, figures and word "Rs. 30.00 lakhs" shall be substituted.

[No. 375-2001/F. No. NC-118/2001]
G. C. SRIVASTAVA, Secy. (N. C.)